



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1947 (श10)
(सं0 पटना 1037) पटना, शुक्रवार, 6 जून 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 जून 2025

सं0 11/न0वि0/गठन-07/2025/1592—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप प्रकाशित करना चाहते हैं, जिससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रण्डलीय आयुक्त के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

सं0 न0वि0/गठन-07/2025/1592—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-8 (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन प्रशासनिक प्रावधान करने के प्रयोजनार्थ पटना जिला के दानापुर अनुमण्डल की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों जिसकी कुल जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार 195564 है, को जिनकी चौहद्दी निम्नवत् है, नगर परिषद, दानापुर निजामत में शामिल होना घोषित करते हैं:-

क्र०सं०	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं०	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर निकाय का क्षेत्रफल	प्रस्तावित नगर निकाय की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम—पटना					
1	नगर परिषद, दानापुर निजामत	नगर परिषद, दानापुर निजामत, फरीदनपुर (27), मैनपुरा (24), जमसौत (आंशिक 30), ढिबरा (33), कोथवाँ (37), मस्तफापुर (आंशिक 36), बबकरपुर(35), आशोपुर (आंशिक 34), नसीरपुर (42)	उत्तर—बाढ़ सुरक्षा बांध, गंगा नदी (थाना नं० 01,17,21,28 एवं 96) दक्षिण—नगर परिषद, खगौल—आदमपुर खुर्द (39), आदमपुर (40), लखनीबिगहा (41), बदलपुरा (52), छोटी खगौल (50), मुस्तफापुर (36), आशोपुर (34), संदलपुर (45), चकदाउद (97), छितनावां (96) पूरब—पटना कैनाल—दीघा (01), सिकन्दरपुर (17), रूकनपुरा (18), जलालपुर (22), हदसपुरा (38), धनौत (20) पश्चिम—दानापुर उसरी सड़क—जमसौत (30), मोबारकपुर(26), छितनावां (96)	23.14 वर्ग कि०मी०	195564

इस क्षेत्र को नगर परिषद, दानापुर निजामत कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

3 जून 2025

सं० 11/न०वि०/गठन-07/2025/1592 दिनांक-03.06.2025 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 3rd June 2025

No. 11/N. Vi./Gathan-07/25 1592—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of the persons who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the date of publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates /Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

Memo No-11/N. Vi./Gathan-07/25/1592—In exercise of powers conferred by Section-8 (c) of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar hereby declares the areas having Population as per census, 2011 is 195564, falling in the circle of column 3 of Danapur Sub-division of the District of Patna to be included in the Nagar Parishad, Danapur Nizamat boundaries of which are as follows:-

Sl.no	Name of Proposed Urban Body	Name/thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Proposed Urban Body	Area of Proposed Urban Body	Total Population of Proposed Urban Body (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District-Patna					
1	Nagar Parishad, Danapur Nizamat	Nagar Parishad, Danapur Nizamat Faridanpur (27), Mainpura (24), Jamsaut (Part 30), Dhibra(33), Kothwa (37), Mustafapur (Part 36), Babakkarpur (35), Aashopur(Part34), Nasirpur(42)	North- Flood Safety Dam, GangaRiver (Thana no. 01,17,21,28,96) South- Nagar Parishad, Khagaul-Aadampur Khurd (39), Aadampur(40), Lakhni Bighaha (41), Badalpura(52), Chhoti Khagaul (50), Mustafapur (36), Aashopur (34), Sandalpur (45), Chakdaud (97), Chhitnawa (96) East-Patna Canal -Digha (01), Sikandarpur (17), Rukanpura (18), Jalalpur (22), Hadaspura (38), Dhanaut (20) West-Danapur Usri Road- Jamsaut (30), Mobarakpur (26), Chhitnawa (96)	23.14 Sq. k.m	195564

This area will be called Nagar Parishad, Danapur Nizamat.

2.This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1037-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>